

भारत का राजपत्र The Gazette of India


प्रतिपत्र
 EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 43] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 1969/फाल्गुन 14, 1890

No. 43] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 1969/PHALGUNA 14, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 5th March 1969

G.S.E. 702.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes, with effect from 1st March, 1969, the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 116/68-Central Excises, dated the 14th May, 1968, namely:—

In the said notification,—

- (i) for the words, figures and letter “under Item No. 22C”, the words and figures “under Item Nos. 19, 21 and 22” shall be substituted;
- (ii) for Explanation I, the following Explanation shall be substituted, namely:—

‘Explanation I.—For the purposes of this notification, “nylon fabrics” means those fabrics—

- (a) which are made wholly from nylon, or
- (b) which are made from nylon in admixture with rayon, provided the nylon content of the same is not less than 40 per cent.’.

[No. 94/69]

K. NARASIMHAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1969

भा० क० नि० 763.-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 116/68-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 14 मई, 1968 में पहली मार्च, 1969 से एनद द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त सशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में—

- (i) “मद सं० 22ग के अधीन”, शब्दों और अंकों के लिए “मद सं० 19, 21 और 22 के अधीन” शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जायेंगे ;
- (ii) स्पष्टीकरण 1 के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् —

“स्पष्टीकरण—1 इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “नाइलोन फैब्रिक” से ऐसे फैब्रिक अभिप्रेत है :—

- (क) जो पूर्णतः नाइलोन से बने हों, अथवा
- (ख) रेयन के मिश्रण वाले नाइलोन से बने हों परन्तु यह तब जब कि उसकी नाइलोन अन्तर्वस्तु 40 प्रतिशत से कम न हो” ।

[स 94/69]

के० नरसिंहन, संयुक्त सचिव ।